E2E Cloud

E2E Networks Limited

CIN- L72900DL2009PLC341980

Awfis, 1st Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate Mathura Road, New Delhi-110044, Phone No. +91-11-4084-4964

Email: cs@e2enetworks.com, Website https://www.e2enetworks.com/

Date: November 6, 2024

Corporate Service Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Maharashtra-400051 Scrip Code/Symbol: E2E

Sub: <u>Intimation of newspaper publication - Notice of Extra Ordinary General Meeting and information regarding e-Voting</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of advertisement published in the following newspapers in respect of Extra Ordinary General Meeting and information regarding e-Voting in compliance of relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs:

- The Financial Express (English National Daily Newspaper- all editions);
- The Jansatta (Hindi National Daily Newspaper- Delhi edition).

The aforesaid results are also accessible on the Company's website at https://www.e2enetworks.com.

This is for your information and records.

Yours faithfully,

For E2E Networks Limited

Ronit Gaba Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A59215

Encl.: As above

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

XPRO INDIA LIMITED

CIN: L25209WB1997PLC085972

Registered Office: Barjora - Mejia Road, P.O. - Ghutgoria Tehsil: Barjora, Distt: Bankura, West Bengal - 722 202

Tel.: +91 9775 301701; e-mail: cosec@xproindia.com, Website: www.xproindia.com

Key information on Unaudited Standalone Financial Results

ľ	Particulars	Quarter Ended			Six Months Ended		Year Ended	
SL. No.		September 30, 2024	June 30, 2024	September 30, 2023	September 30, 2024	September 30, 2023	March 31, 2024	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total income from operations	13398.42	13853.22	10997.42	27251.64	24086.60	46541.10	
2	Profit before tax	1461.30	1898.91	1354.36	3360.21	2920.79	6218.44	
3	Profit before tax(before exceptional and/or extraordinary items)	1461.30	1898.91	1354.36	3360.21	2920.79	6016.44	
4	Profit before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1082.59	1402.00	947.87	2484.59	2077,41	4387.89	
5	Total comprehensive income	1105.69	1371.49	947.84	2477.18	2085.93	4390.73	

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and on the Company's website at www.xproindia.com

C Bhaskar

"FORM NO. INC-26" [Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT/REGIONAL DIRECTOR WESTERN REGION, MUMBAI. In the matter of subsection (4) of Section 13

of the Companies Act, 2013, and clause (a) of subrule (5) of rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

AND In the matter of FRESHFROZ GOODNESS FOODS PRIVATE LIMITED (formerly known as GOBLIN FOODS PRIVATE LIMITED) ("Company")

(CIN: U15137MH2009PTC190488) aving its registered office at 503, Embassy Centre Nariman Point, Mumbai, Maharashtra-400021,

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make Application to the Central Government (Regional Director) under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Specia tesolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 07th October, 2024 to enable the Company to shift its Registered Office from "State of Maharashtra (ROC Mumbai)" to the State of Uttarakhand.

any person whose interestis likely to be affected by the proposed change of the registered office the Company may deliver either on the MCA 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send y registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interesand grounds of opposition to the "Regional Director, Western Region, Ministry of Corporate Affairs, Everest, 5th Floor 100 Marine Drive Mumbai-400002, Maharashtra' within fourteer days of the date of publication of this notice with copy to the applicant Company at its registered ffice at the address mentioned below: egistered Office: 503, Embassy Centre Nariman

Point, Mumbai, Maharashtra-400021, By order of the Board or FRESHFROZGOODNESS FOODS PRIVATE LIMITED

(RAKESH KUMAR (DIRECTOR Place: Mumbai, Maharashtra (DIN: 10567640 R/O C/O BALADEV RAJ, E-30, PHASE NO-ALLIANCE COLONY, RUDRAPUR, KICHHA DHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND-263153 CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT



NEELAM LINENS AND GARMENTS (INDIA) LIMITED

Corporate Identity Number: U17299MH2010PLC208010 Date of Incorporation: September 22, 2010

Our Company was incorporated as private limited Company under the name "Neelam Linens and Garments (India) Private Limited", under the provisions of the Companies Act, 1956 and Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Mumbai on September 22, 2010. The status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to "Neelam Linens and Garments (India) Limited" vide Special Resolution dated August 12, 2022. The fresh certificate of Incorporation consequent to conversion was issued on September 1, 2022, by the Registrar of Companies, Mumbai. The Corporate Identity Number of our Company is U17299MH2010PLC208010. For details of incorporation, change of name and registered office of our Company, please refer to chapter titled "General Information" and "History and Certain other Corporate Matters" on page 54 and 124 respectively of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: 446-447, 4th Floor, Shah & Nahar Industrial Estate Sitaram Jaday Marg, Lower Parel, Delisle Road, Mumbai- 400013, Maharashtra, India. Tel: +91 22 2494 2454; E-mail: compliance@neelamgarments.com; Website: www.neelamgarments.com; Company Secretary and Compliance Officer: Supriya Gupta

PROMOTERS OF OUR COMPANY: KANTILAL JETHVA AND BHAVIN JETHWA

THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS") (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON EMERGE PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED.

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 54,18,000^ EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF NEELAM LINENS AND GARMENTS (INDIA) LIMITED ("COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [♦] LAKHS OF WHICH UP TO 2,76,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 51,42,000^ EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.80% AND 25.43% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH, FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 187 OF THE RED HERRING PROSPECTUS.

Subject to finalisation of Basis of Allotment

The Issue is being made through the Book Building Process in accordance with Regulations 253(1) of the SEBI ICDR Regulations.

- QIB Portion: Not More than 50% of the Net Issue
- Retail Individual Bidders Portion: Not less than 35% of the Net Issue
- Non-Institutional Bidders Portion: Not Less than 15% of the Net Issue

PRICE BAND

PRICE BAND: ₹ 20/- TO ₹ 24/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH THE FLOOR PRICE IS 2 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS 2.4 TIMES THE FACE VALUE.

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 6,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 6,000 EQUITY SHARES THEREAFTER. ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE ON*: THURSDAY, NOVEMBER 7, 2024

BID/ISSUE

BID/ISSUE OPENS ON: FRIDAY, NOVEMBER 8, 2024 BID/ISSUE CLOSES ON: TUESDAY. NOVEMBER 12. 2024**

PROGRAM

*Our Company, in consultation with the BRLM, may consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investor Bid / Issue Period shall be one (1) Working

Day prior to the Bid/Issue Opening Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations. ** Our Company, in consultation with the BRLM, may consider closing the Bid/Issue Period for QIBs one (1) Working Day prior to the Bid/Issue Closing Date in

accordance with the SEBI ICDR Regulations. UPI mandate end time and date shall be 5.00PM on Bid/ Issue Closing Date.

NOTICE TO THE INVESTORS CORRIGENDUM CUM ADDENDUM TO RED HERRING PROSPECTUS DATED OCTOBER 29, 2024

("THE CORRIGENDUM CUM ADDENDUM") In this regard, potential bidders may note the following information disclosed under RHP dated October 29, 2024 shall stand modified in the manner

Investors are advised that any reference to the Marathi edition of the regional newspaper Navshakti in the RHP should be read as Marathi edition of the

Regional newspaper Pratahkal. The said changes are to be read in conjunction with the RHP dated October 29, 2024, the Bid cum Application Forms and the Abridged Prospectus unless indicated otherwise, and accordingly their references in the Red Herring Prospectus stand updated pursuant to this Corrigendum cum Addendum.

All capitalised terms used in this Corrigendum cum Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Red Herring Prospectus. **BOOK RUNNING LEAD MANAGER**

REGISTRAR TO THE ISSUE

TO THE ISSUE

EXPERT GLOBAL

EXPERT GLOBAL CONSULTANTS

PRIVATE LIMITED

1511, RG Trade Tower Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034, India Telephone: +91 11 4509 8234;

Email: ipo@expertglobal.in Website: www.expertglobal.in

Investor grievance email:

compliance@expertglobal.in

Contact Person: Gaurav Jain

CIN: U74110DL2010PTC205995

SEBI registration number: INM000012874



PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED

Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel (E) Mumbai - 400011, Maharashtra, India

Telephone: +91 22 4961 4132 / 3522 0056; Email: support@purvashare.com

Contact Person: Deepali Dhuri Website: www.purvashare.com

CIN: U67120MH1993PTC074079

Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related SEBI Registration Number: INR000001112

problems, such as non-receipt of letters of Allotment, noncredit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc. On behalf of Board of Directors

Supriya Gupta

Maharashtra, India.

Tel: +91 22 2494 2454

COMPANY SECRETARY AND

COMPLIANCE OFFICER

446-447, 4th Floor, Shah & Nahar Industrial

Email Id: compliance@neelamgarments.com

Investors can contact the Company Secretary and

Estate Sitaram Jadav Marg, Lower Parel,

Website: www.neelamgarments.com

Delisle Road, Mumbai- 400013.

For NEELAM LINENS AND GARMENTS (INDIA) LIMITED

Bhavin Jethwa

Date: November 5, 2024

Place: Mumbai

Managing Director Disclaimer: Neelam Linens And Garments (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Mumbai on October 29,

2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.neelamgarments.com, the website of the BRLM to the Issue at www.expertglobal.in, the website of EMERGE Platform of NSE, i.e. www.nseindia.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 29 of the Red Herring Prospectus: The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the

United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.



Extract of Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the guarter and six months ended September 30, 2024 (INR in lacs Quarter Ended Six Months Ended Year Ended June September September March September Particulars 30, 2023 30, 2024 30, 2024 30, 2023 30, 2024 31, 2024 Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited 13853.22 10997.42 24086.60 46541.10 13398.42 27251.64 Total income from operations Net Profit for the period (before tax, exceptional 1372.25 1898.89 1354.10 3271.14 2920.35 6218.49 and/or extraordinary items) Net Profit for the period before tax 1372.25 1898.89 1354.10 3271.14 2920.35 6016.49 (after exceptional and/or extraordinary items) Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) 993.54 1401.98 947.6 2395.52 2076.97 4387.94 5 Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 1004.11 1371.47 947.58 2375.58 2085.49 4390.78 2203.46 2203.46 2067.22 2203.46 2067.22 2203.46 Equity share capital Other equity 53848.26 Earnings per share (of INR 10 each) (Not annualised)(INR) * 4.51 * 6.36 * 4.64 * 10.87 * 10.75 (a) Basic 21.81 * 4.64 * 10.81 (b)Diluted * 4.48 6.34 * 10.75 21.77

For and on behalf of the Board

New Delhi November 5, 2024

Managing Director & Chief Executive Office

xproindia

Regd. Office: Awfis, 1st Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044, Phone No. +91-11-4084-4964 Phone: +91-11-411-33905 Email: cs@e2enetworks.com Website: https://www.e2enetworks.com/

NOTICE OF EXTRA- ORDINARY GENERAL MEETING AND **E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the Notice of Extra-Ordinary General Meeting

E2E Networks Limited

CIN - L72900DL2009PLC341980

("EGM") of the Members of E2E Networks Limited ("the Company") will be held on Wednesday, November 27, 2024 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at the EGM, to transact the businesses as set out in the Notice of the EGM. The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of

the Company i.e., Awfis, First Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044. The attendance of members attending through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum for the EGM. The Company has sent the Notice of the EGM, through electronic mode

(i.e. emails) to the shareholders whose e-mail addresses were registered with the Company/ Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants as on Friday, November 1, 2024 in accordance with the General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and the subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The dispatch of Notice of the EGM through emails has been completed on Tuesday, November 5, 2024.

The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.e2enetworks.com and on the website(s) of the stock exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, where the Company's shares are listed and on the website of Link Intime India Private Limited ("Link intime") at https://www.linkintime.co.in/.

Members are provided with a facility to attend the EGM through electronic platform provided by Link Intime. Members are requested to visit https:// instavote.linkintime.co.in/ and access the shareholders'/ members' login by using the remote e-voting credentials provided to them.

Members are requested to update/register their KYC details including e-mail address and bank accounts details through your DP to register/update KYC details such as PAN, e-mail addresses and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP. Instructions for remote e-Voting and e-Voting:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("Listing Regulations"), the Members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of the EGM using electronic voting system ("remote e-voting") provided by Link Intime. Member's holdings share either in physical form or dematerialized form, as on Wednesday, November 20, 2024 ("Cut-off date") can cast their vote via remote e-voting facility of Link intime through https://instavote. linkintime.co.in/. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the Cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the total voting capital of the Company as on the Cut-off date. Further, a person who is not a Member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
- The remote e-voting period will commence on Sunday, November 24, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Tuesday, November 26, 2024 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by Link intime thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member. the member cannot modify it subsequently.
- Information and instructions comprising manner of voting, including remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the EGM as well as in the email sent to the members by Link intime. Members who have acquired shares after the sending of the EGM Notice
- at enotices@linkintime.co.in. iv. Members attending the EGM through VC / OAVM but who have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the EGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the EGM through VC / OAVM,

through electronics means and before the Cut-off date i.e. Wednesday,

November 20, 2024 may obtain the User ID and password by sending a

request to the Company at investors@e2enetworks.com or to Link Intime

- however they shall not be eligible for e-voting at the EGM. Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the
- EGM in the manner provided in the Notice of the EGM. vi. The Notice of EGM is also available on the web-link Investor (e2enetworks.com) vii. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ankush Agarwal, (Membership No. F9719 & COP No. 14486), Partner of MAKS

& Co., Company Secretaries [FRN P2018UP067700], as Scrutinizer(s)

to scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner. viii. In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of https://instavote.linkintime.co.in/ or send a request to Mr. Vishal Dixit, Team Member, Link Intime, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at the designated e-mail id instameet@linkintime. co.in. who will address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company

The Shareholders are also requested to carefully read the Notes set out in the EGM Notice for more details on process to be followed for joining the EGM and manner of casting vote etc.

Secretary at cs@e2enetworks.com.

Date: November 5, 2024

Place: New Delhi

For E2E Networks Limited Ronit Gaba

Company Secretary & Compliance Officer



Place: Mumbai



Date: 6th November, 2024



Tentative timeline

within which such

proceeds shall be

12 to 15 months

utilized

AJMERA REALTY & INFRA INDIA LIMITED

CIN: L27104MH1985PLC035659

Registered Office: Citi Mall, New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400053;

Tel No: +91 22 6698 4000 Fax No.: +91 22 2632 5902

E-mail: investors@ajmera.com Website: www.ajmera.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF THE 01/2024-25 EXTRAORDINARY GENERAL

in reference to the captioned subject matter and in continuation to our intimations dated 22nd

October 2024 we are submitting herewith the Corrigendum to the Notice of the (01/2024-25) Extra-Ordinary General Meeting ('EGM') of Ajmera Realty & Infra India Limited ("the Company") which is

scheduled to be held on Thursday, 14th November, 2024 through Video Conferencing (VC)/ Other

Total estimated

utilised for each

amount to be

of the Objects

(Rs. In Crores)

Audio Visual Means (AVM) to transact the Businesses mentioned in the EGM Notice.

1) Revision in the second object of the Issue are as follows:

Part funding the project expenditures for its

c. Ajmera Greenfinity AB situated at Wadala. d. Ajmera Vihar situated at Bhandup

Kanjurmarg - Infra related cost on layout

and/or phase wise project development

In addition to the above, the proceeds may

also be utilised towards acquisition of any new

projects/ assets depending upon the nature of

business opportunity and the commercial

2) Further Addition of a period of 36 months in the paragraph as stated below:

3) Further revision in the below paragraph for reallocation of expenses:

If the issue proceeds are not utilised (in full or in part) for the objects (provided hereinabove)

during the period stated above due to any such factors, the remaining issue proceeds (of a

particular object) shall be utilised within a period of 36 months in such manner as may be

determined by the Board, in accordance with applicable laws and without further approval of

It is clarified that the Company may reallocate any excess proceeds from the issuance originally

designated for a specific purpose(s)/ object(s) (as provided in the table above) to other purpose(s)/

object(s) for the objects within the ongoing projects or projects to be launched (the details of

such projects being stated above), if that specific purpose has been fulfilled with a part of the

amount allocated to said specific purpose. It is further clarified that the reallocation of excess

proceeds to other objects shall be in a manner as provided under the aforesaid NSE Circular

No. NSE/CML/2022/56 dated December 13, 2022 and the BSE Circular No. 20221213-47.

This may entail rescheduling and revising the planned expenditure and funding requirements

and increasing or decreasing the expenditure for a particular purpose from the planned

expenditure as may be determined by the Board, subject to compliance with applicable laws."

Our Company, in accordance with the policies formulated by our Management Committee of the

Board of Directors of the Company from time to time, will have flexibility to deploy the Issue

7) Addition of the table describing the current and proposed status of the allottee post the

The current status of the Proposed Allottees is Non - Promoter and after the proposed allotment

also the status will remain Non - Promoter only and there will be no change in the status of the

Ultimate Beneficial Owners

Current Status | Proposed Status

Non-Promoter

Ms. Amisha N. Vora

Mr. Rohit Kothari

Non-Promoter

5) Further deletion of the below sentence from Interim Use of Issue proceeds:

6) The Ultimate Beneficiary Owners (UBO) details of the two companies are as follows:

feasibility and viability of such acquisition.

Names of the projects to be launched:

Project at Wadala- next phase(s)

Lugaano - next phase(s)

Project at You Nagar

the members of the Company.

4) Further deletion of the below paragraph:

Name of the proposed identified allottees

Anchorage Capital Scheme II

Name of the Proposed Allottee

Mr. Mukul Mahavir Agrawal

Anchorage Capital Scheme II

Mr. Gagan Dinanath Chaturvedi

12. Mahalaxmi Brokerage (India) Pvt. Ltd.

GeeCee Ventures Limited

Minosha India Ltd.

8. Alpana Enterprises

10. Devraag Investments

11. Sparsh Broking Pvt Ltd

13. Mr. Vijay Khetan

("Updated EGM Notice")

Authum Investment & Infrastructure Ltd.

Trishakti Power Holdings Private Limited

Prabhudas Lilladher Advisory Services Private Limited Non-Promoter

Registrations they may send an email to mt.helpdesk@linkintme.co.in

Prabhudas Lilladher Advisory Services Private Limited

preferential issues namely, promoter or non-promoter

ongoing and/or, to be launched new

Names of the ongoing projects:

a. Ajmera Manhattan situated at

b. Aimera Prive situated at Juhu

Bhakti Park- Wadala

acquisitions as follows:

e. Codename Vikhroli

Project at Bandra.

a. Utilization of Issue Proceeds.

Particulars

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपकी उम्मीद का खाता

सार्वजनिक स्चना

एततद्वारा सचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मुलधन और ब्याज के पुनर्भगतान में विफल रहे है और ऋण को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (सुरक्षा) हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनके द्वारा बैंक को प्रदान किए गए उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे, जो कि इसके अतिरिक्त प्रयोजनों के लिए थे।उक्त उधारकर्ताओं की जानकारी नीचे दी गई है, उक्त उधारकर्ताओं को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से

क्र. लखनऊ	खाते का नाम	उधारकर्ता / गारंटर का नाम (संपत्ति का	एन.पी. ए. की	मांग सूचना की तिथि पर
सं.		मालिक)	तिथि	बकाया राशि
ी पूसा रोड	शिवा रबर एंड केमिकल्स खाता संख्या 138606000 0006055	मेसर्स शिव रबर एंड केमिकल्स इसके प्रोपराइटर (उधारकर्ता) श्री राकेश चंद्र शर्मा पुत्र श्री ज्ञानेंद्र शर्मा (उधारकर्ता) श्री शशांक शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राकेश चंद्र शर्मा (सह—आवेदक / गारंटर) श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री राकेश चंद्र शर्मा (सह—उधारकर्ता / बंधककर्ता) श्री तनुज शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राकेश चंद्र शर्मा (गारंटर) मेसर्स शिव कंक्रीट उद्योग इसके प्रोपराइटर (सह—आवेदक) के माध्यम से	13/10/2024	₹ 1,10,64,825/

1	नजफगढ़	देवेंद्र कुमार	श्री देवेंद्र कुमार पुत्र श्री रघुवर	03/10/2024	₹ 44,94,245/-
1		खाता संख्या	दयाल (उधारकर्ता / बंधककर्ता) श्री		
1		135906000	विशांत कुमार पुत्र श्री रघुवर दयाल		
ı		0006048	(सह–उधारकर्ता / बंधककर्ता) सुश्री		
ı			प्रीति कुमारी पत्नी श्री देवेंद्र कुमार		
1			(सह–उधारकर्ता)		

संपत्ति / संपत्तियों का विवरणः खसरा संख्या—614 के अंतर्गत आने वाले 100 वर्ग गज या 83.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले फ्री होल्ड सिंह की संपत्ति।

उपरोक्त उधारकर्ता / ओं और / या उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी करने ही तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और र्निर्माण तथा प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

VAGHANI TECHNO-BUILD LIMITED

Registered Office: 903 & 904, 9th Floor, Krushal Commercial Tower, Ghatkopar-Mahul Road, Chembur (West), Mumbai-400089, Maharashtra Tel: +91 22 31008500; Email: investor@vaghanitechnobuild.com,

Website: www.vaghanitechnobuild.com; Corporate Identification Number: L74999MH1994PLC187866;

Recommendations of the Committee of Independent Directors (the "IDC") of Vaghani Techno-Build Limited (the "Target

Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and

Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI (SAST) Regulations, 2011") in relation to the open offer to the public

shareholders of the Target Company made by Jatinkumar Tulsibhai Patel ("Acquirer 1"), Parth Tulsibhai Patel ("Acquirer 2") and

Arjunkumar Jagdishbhai Patel ("Acquirer 3") (Hereinafter Acquirer 1, Acquirer 2 and Acquirer 3 collectively referred to as

Vaghani Techno-Build Limited

3 Details of the Offer pertaining to Target The Open Offer is being made by the Acquirers in terms of Regulations 3(1) & 4 of

the SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 13,57,200 (Thirteen

Lakh Fifty Seven Thousand and Two Hundred) fully paid-up equity shares of face

value of ₹ 10/- each (the "Equity Shares"), representing 26% of the Voting Share

November 05, 2024

(एक अनुसूचित वाणिन्यिक बैंक)

आंचलिक कार्यालय/शाखाः १बी, पूसा रोड, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली, पिनकोड -110 060 पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टावर, एनएच- 31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजीसराय, हरहुआ, वाराणसी, यूपी-221 105

सचित किया जा रहा है।

क्र. लखनऊ	खाते का नाम	उधारकर्ता / गारंटर का नाम (संपत्ति का	एन.पी. ए. की	मांग सूचना की तिथि पर
सं.		मालिक)	तिथि	बकाया राशि
1 पूसा रोड	शिवा रबर एंड केमिकल्स खाता संख्या 138606000 0006055	मेसर्स शिव रबर एंड केमिकल्स इसके प्रोपराइटर (उधारकर्ता) श्री राकेश चंद्र शर्मा पुत्र श्री ज्ञानेंद्र शर्मा (उधारकर्ता) श्री शशांक शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राकेश चंद्र शर्मा (सह—आवेदक / गारंटर) श्रीमती रजनी शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री राकेश चंद्र शर्मा (सह—उधारकर्ता / बंधककर्ता) श्री तनुज शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राकेश चंद्र शर्मा (गारंटर) मेसर्स शिव कंक्रीट उद्योग इसके प्रोपराइटर (सह—आवेदक) के माध्यम से		₹ 1,10,64,825/

संपत्ति/संपत्तियों का विवरणः प्लॉट संख्या **G**1—245 पर स्थित वह समस्त आंशिक व्यावसायिक संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। रीको औद्योगिक क्षेत्र खुश खेड़ा तहसील–तिजारा जिला–अलवर राजस्थान में संपत्ति की सीमाएँ– पूर्वः प्लॉट संख्या–246 उत्तरः अन्य संपत्ति पश्चिमः प्लॉट संख्या–244 दक्षिणः सड़क

2	नजफगढ़	देवेंद्र कुमार	श्री देवेंद्र कुमार पुत्र श्री रघुवर	03/10/2024	₹ 44,94,245/-
		खाता संख्या	दयाल (उधारकर्ता / बंधककर्ता) श्री		
		135906000	विशांत कुमार पुत्र श्री रघुवर दयाल		
		0006048	(सह–उधारकर्ता / बंधककर्ता) सुश्री		
			प्रीति कुमारी पत्नी श्री देवेंद्र कुमार		
			(सह–उधारकर्ता)		

आवासीय भूखंड संख्या–237 का वह पूरा हिस्सा, जो गांव–धरौती खुर्द, डी–ब्लॉक, लक्ष्मी गार्डन, परगना–लोनी, जिला– गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201102 की आबादी में स्थित है। संपत्ति की सीमा–पूर्वः सड़क उत्तरः रामू बाबू की संपत्ति पश्चिमः सड़क दक्षिणः माधो

दिनांकः 06 / 11 / 2024 स्थानः दिल्ली एनसीआर

1 Date of Meeting

Company

2 Name of the Target Company

अनिल कुमार शर्मा (प्राधिकृत अधिकारी) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड।

पहली बिक्री सूचना दिनांक 28.10.2024 का शुद्धिपत्र पॉपुलर स्पिरिट्स एलएलपी (सीआईआरपी के तहत) पंजीकृत कार्यालयरू एस-363, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश भाग-II, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110048

पहली नीलामी बिक्री सचना

पॉपुलर स्पिरिट्स एलएलपी (सीआईआरपी के तहत) की निम्नलिखित संपत्तियां और संपदाएं जिनका रलएलपीआईएनरू एएएल–3211 है, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है और कोई सहारा नहीं के आधार पर नीलामी की जाएंगी। बिक्री निजी नीलामी के माध्यम से की जाएगी।

क्र. सं.	संपत्ति विवरण		पंजीव	pरण की तिथि	ईएमडी राशि		
1 महिंद्रा बोलेरो (DL1CA)		E9569)		2.12.2021	50,000		
2	महिंद्रा बोलेरो (DL1CA)	E9572)		2.12.2021	50,000		
3	अन्य संपत्तियां (एयर कं रेफ्रिजरेटर आदि सहित)	50,000					
नीलामी समय—सीमा							
विवरण		क्रमांक 3 में उल्लिखि संपत्तियों के लिए समय—सीमा					
निरीक्षण व	की तिथि	12.11.2024		12.11.2024			
ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम 1: तिथि बिक्री की तिथि		13.11.2024		13.11.2024			

1) अन्य परिसंपत्तियों के रूप में क्रमांक सं.3 में उल्लिखित परिसंपत्तियों का विवरण आईआरपी के पास है और संभावित खरीदार विवरण के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

2) ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। 3) संभावित बोलीदाता ई.ओ.आई. (कोटेशन) के साथ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ई.एम.डी. राशि आई.आर. पी. के पते पर जमा करेंगे, अर्थात (प्लॉट नं. डब्ल्यू.जेड.-डी-9, गली नं. 5, महावीर एन्क्लेव, पालम कॉलोनी, सुलभ इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स के पास, नई दिल्ली-110045)

4) इच्छुक आवेदक निम्न हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करके संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर 5) अंतरिम समाधान पेशेवर को किसी भी समय नीलामी के किसी भी नियम व शर्तों को स्वीकार करने रद्द करने, विस्तार करने या संशोधित करने आदि का अधिकार है। उसे बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है। उसे किसी भी समय नीलामी रद्द करने का

6) तकनीकी सहायता के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें।

पंकज कुमार तिवारी **आईपी पंजीकृत संख्या**: आईबीबीआई / आईपीए-003 / आईसीएआई-एन-00394 / 2022-2023 / 14278 **एएफए संख्या** एए3 / 14278 / 02 / 300625 / 301108, वैध 30 जून 2025 तक पॉपुलर स्पिरिट्स एलएलपी के सीआईआरपी में डीम्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दिनांक: 06.11.2024 पता: प्लॉट नंबर डब्ल्यूजेड-डी-9, गली नंबर 5, महावीर एन्क्लेव, स्थान: दिल्ली पालम कॉलोनी, सुलभ इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स के पास नई दिल्ली-110045 ईमेल: ippankajtiwari@gmail.com/+91 8826432340

ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड

सीआईएन : एल72900डीएल2009पीएलसी341980

पंजीकृत कार्यालय : एवफिस, प्रथम तल, ए—24/9,

मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट,

मथुरा रोड, नई दिल्ली—110044, दूरभाष सः 91—11—4084—4964,

दूरभाष सं: 91-11-411-33905, ई-मेल : cs@e2enetworks.com, वेबसाइट : https://www.e2enetworks.com/

असाधारण सामान्य बैठक तथा ई-मतदान

ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस आरएफपी नोटिस के संबंध में किसी भी अपडेट के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://www.aicofindia.com पर जाएं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 28-11-2024 दोपहर 12.00 बजे तक होगी। H

उप महाप्रबंधक

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग

कंपककृत संपत्ति(वी)

पतेर में 883, मू तल न्याय

खंत । जीतीए इदिशपुल

वहतील और जिला गालियाबाद,

उत्तर प्रदेश-201009

एग्रीकल्वर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

प्लेट बी एवं सी, 5वां तल, ब्लॉक 1,ईस्ट किदवई नगर , नई दिल्ली -110023

सीआईएन : U74999DL2002PLC118123

साइबर सुरक्षा पर आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

निविदा संदर्भ क्रमांक. IAD/2024-25/2 दिनांक 06.11.2024

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) एक अग्रणी फसल बीमा कंपनी, वित्त वर्ष

विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया एआईसी की वेबसाइट https://www.aicofindia.com पर जाएं और

इच्छुक पात्र बोलीदाता ई-टेंडरिंग पोर्टल https://aic.procure247.com/home के माध्यम से अपनी बोलियां

2024-25 के लिए साइबर सुरक्षा पर आंतरिक ऑडिट के लिए आरएफपी आमंत्रित करती है।

के अनुसार बकावा राशि

¥. 10,63,196.65

(रुपये दस लाख

तिरेसंट हजार एक

सी अहानने एवं

पैंसठ पैसे मात्र)

हनता./- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग पाइनेस लिमिटेड

नोट : किसी भी भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी विज्ञापन को वरीयता दी जाएगी ।

NAGARJUNA AGRI- TECH LIMITED

कत कार्याहरू : 9वां तह, अंतरिश भवत, 22, के. जो आर्थ, वर्ष विन्ही-110001,हरभाव सं: 011.23557171 , 23357172, 23705414, वेबनावंट : www.pubb

तिकि के अनुसार संप्रीचित प्रतिश्चति दित (प्रवर्तन) निवासावसी 2002 के विकास 3(1) के साथ. परित वित्तीय परितपतिवारी के प्रतिश्चनिवरण

एवं युवर्गिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ के आवाच (१) की बाता 13(2) के अंतर्गत सुप्रमा

हम. पीएनबी हावशिंग फाइनेंस लिमिटेड (वहीं इसमें इसके बाद "पीएनबीएकएकएल" के ऋप में संदर्भित) ने कितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पूर्व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियन 2002

(वर्डी इसमें इसके उपर्वेत "अविनिधम" के रूप में संदर्गित) के उपनाप 🕕 की बात 👊 🖟 अंतर्गत, वनारी इंडीर शाखा जिसका करवांतव, "201—ए और 202, हितीय तल मेगापेलिस बिलिवंग, 272

छ-ज्ञपारकतोओं / सर्टर्ज को निर्मत की गई थी और ऐसा इसलिये किया गया था क्योंकि आपने खाते को किसते / ब्यान का मुगतान न करने के कारण मारतीय रिजर्म केंक / राष्ट्रीय आयार

बैंक के दिशानिर्देशों के अनुभार अगिरादनकारी परिसर्वतियों के रूप में वर्नीकृत कर दिया गया था। उस की विषयकातु जो है वह मुख्यम, खाज इत्यदि की किसते के मुनतान में आवर्क द्वारा की र

धूर्व हैं। बकामा उन्हेंन का मन्द्रेश्वन नीचे तालिका में किया गया है। इसके अविरिक्त, अनेक कारणों है, हम मानते हैं कि आम चीम सूचना का पालनानुमालन करने से बच रहे हैं और इसलिय हम ए

शिविधम की बार 12(2) के अंतरीत की अधिवार्ध कर पूर्वी इस नीन सुकता का यह प्रकारन कर रहे हैं। अपनो प्रत्युक्त इस मीन सूचना के अनावन की विकि से au विनों की एकाविध के मीत

पर्वीएवएफरून की अध्यान ब्याज और शुरूबों के साथ निम्न तालिका में अभिन्न सांति का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। भुगतान करने में विकल तीने पर पीएनकैएफर्ड्यू जो है यह उस्त अधिनिया हैं कार 1964) के सभी या किसी भी प्राणवान के तहत सभी प्रतिमृत परिसंचीत्रयों वा इनमें से किसी एक या अभिवा के विकक्ष अनिवार्य कार्रवाई 🗸 चपाय करेंगी, किसमें उपारकार्शित और गारंटरी व

sec लाल. विशेष परिवर्षित्य के प्रतिपृक्तिरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिपृति क्षित प्रवर्तन अधिनियम २००२ की वाच 13 की उप-पात (a) के प्राचानने की और अकृष्ट किया जाता है. विसर्क अतन प्राप्त किही स्त्री हारा अवता से मोटेशमें व निविद्य निमंत्रित करके शाकेजनिक मीटानी द्वारा अटिकूट परिसंधनियों के विकास सुवना के प्रकाशन की तिथि तक ही पीएनवीएवर्गकएल हारा व्यवकृत सरत लागती, इनार्त एवं आधी के साथ करतो की संपूर्व राशि का भूगतान कर सकते 🖁 🗸 उसे चुका सकते हैं। कृषण ध्यान दे कि बाँदे निजी राधि द्वारा अवदा जनता से कांटेजने व निर्मित निजीन ल्प्तं सार्वजनिक गीलामी द्वारा प्रतिमृत परिसातियों के विक्रवार्थ सुधना के प्रकाशन से पूर्व पेएनबीएचएकएल द्वारा वहनकृत अनसा लागती, प्रमारी एवं व्यापी के साथ बकाये की संपूर्ण शाहि का मुनत ही किया जाता है 🗸 उसे नहीं चुकार जाता है, तो इस अर्थीं के उपरोठ आप प्रतिपूत परिसर्गित्र(में) को ऋपन्त्रत करने में अधिकारी नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, आपको जन अधिनियम की धा

(a) के अंतर्गर विकार पड़ा के साध्यम से अपना किसी भी अन्य विक्षि से नामीला प्रतिस्था की संस्थितिक कर से अधिकारिक

उधारकतो एवं सह-उधारकतो वर नाम एवं पता

बी/सुधी नरेंद्र कुमार राजीड़ (आवेदको एवं बी/सुधी मांगीलाल सठीड़ सह-आयेदक) आवासीय पता : 24 रिद्धविनायक, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर

वेश-201009, स्थाई पता । 24 सिद्धविभावक, इदिरापुरम, गाविकासद, ज

ar, गुडमाव, गुडमांव, इतिमाणा-122001, मेवक संपत्ति कर पता । पतिट नंबर asa,

ल, न्याय छोड प्रोडीए, इदिशपुरम, राहसील और पित्सा गाजियाबाद, गाजियाबाद

वेश-201009, नार्यालय वरा मता । प्लॉट नंबर ३६४ और ३६६ मेरा लिमिटेस, रोक्टर

एमजी चंद, इंदीर, क्रम प्रदेश-462001 में स्थित है, के मक्रमम से मीम सूचना निर्मत की बी। उक्त गीम सूचना लो है वह हमारे प्राणिकृत अधिकारों के मध्यम से नीचे वर्णित आप रुपी जगरकतीओं

शाखा कार्यालय : 201-ए और 202, द्वितीय तल, मेगापोलिस बिन्दिरंग, 579, एमजी रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001

) pab Housing

काल संक्या(ए)

NHL/IND/9816

HOUSIND/0816

श्रीओं इंडीर

तिमत परिसंगतियाँ पर अधिप्रहण क्रिए जाने की कार्रवाई मी सम्मितिल होगी।

गार प्रदेश-201000

म्बन : इंदीर, दिनींच : 05.11.2024

Registered Office: 56, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad – 500082, CIN: L01119TG1987PLC007981, Tel. No.: (+91) 8977398159, Email: natl@rediffmail.com, Website: www.nagarjunaagritechlimited.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of M/s. Nagarjuna Agri-Tech Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") on the Open

1.	Date	November 05, 2024	
2.	Name of the Target Company ("TC")	Nagarjuna Agri-Tech Limited	
3.	Details of the Offer pertaining to TC	Open Offer for the acquisition of up to 24,35,966 (Twenty-For Lakhs Thirty-Five Thousand Nine Hundred and Sixty-Six) fur paid-up equity shares of the Target Company having far value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares representing 26.00% of the total paid-up equity and voting share capital of the Target Company on a fully diluted basis (as the 10th working day from the closure of the tendering period the Open Offer) of the Target Company at a price Rs. 20/- (Rupees Twenty Only) per Equity Share ("Off Price") from the public shareholders of the Target Company ("Open Offer"). The Public Announcement dated August 05, 2024, Details Public Statement dated August 12, 2024, the Draft Letter Offer dated August 20, 2024 and the Letter of Offer date October 28, 2024 have been issued by M/s. VC Corporal Advisors Private Limited, being the Manager to the Open Offen on behalf of the Acquirer.	
4.	Name(s) of the Acquirer and PAC with the Acquirer	Acquirer: Mrs. Rachna Suman Shaw PAC: There are no PACs for the purpose of this Open Offe	
5.	Name of the Manager to the Offer	Name: V C Corporate Advisors Private Limited CIN: U67120WB2005PTC106051 Reg. Office: 31 Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No 2C, Kolkata- 700013. SEBI Regn No.: INM000011096 Tel. No.: 033 2225 3940 Email ID: mail@vccorporate.com Website: www.vccorporate.com	
6.	Members of the Committee of Independent Directors	a. Mr. Mahender Reddy Nalavola (Chairperson) b. Ms. Chanchal Kedia (Member) (Appointed w.e.f. Septe 04, 2024 in place of Mr. Soma Raju Kallepalli whose expired on September 30, 2024)	
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	 IDC Members are Independent and Non-Executive Director of the Target Company; None of the IDC Members hold any equity shares of the Target Company; None of the IDC Members have any other contracts relationship with the Target Company. 	
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any of the equipment shares/securities of the Target Company during the: a. 12 months period preceding the date of the Public Announcement; and b. period from the date of the Public Announcement till the date of this recommendation.	
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract /relationship), if any.		
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any of the equation shares/securities of the Acquirer.	
11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC Members believe that the Open Offer is fair a reasonable.	
12.	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. Company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent advisor, if any can be seen by the shareholder)	The IDC has taken into consideration the following for maki recommendations: a. The IDC has reviewed the Public Announcement, to Detailed Public Statement, the Draft Letter of Offer a Letter of Offer, issued by the Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirer;	
		 b. The IDC Members are of the opinion that the Offer Pr of Rs. 20/- (Rupees Twenty Only); offered by the Acqui is in accordance with the relevant regulations prescrib in the SEBI (SAST) Regulations; 	
		c. The Offer Price is higher than the (i) negotiated price und the Share Purchase Agreement i.e., Rs. 10/- per Equi Share executed on August 05, 2024; and (ii) Fair Val of the equity share of the Target Company i.e., Rs. 18.0 per Equity Share as on March 31, 2024;	
		d. The Open Offer is for acquisition of publicly held Equ Shares of the Target Company. The Public Shareholde have the option to tender the equity shares or remainvested in the Target Company.	
		Based on the above, the IDC is of the opinion that, as on t date of this recommendation, the Offer Price of Rs. 20/- price Equity Share offered by the Acquirer appears to be fair a reasonable and is significantly higher than the fair value property share of the Target Company which is Rs. 18.07 certified by the Registered Valuer.	

Terms not defined herein carry the meaning as ascribed to them in the Letter of Offer dated October 28, 2024. To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by Nagarjuna Agri-Tech Limited under the SEBI (SAST) Regulations.

None

13. Details of Independent Advisors, if any.

14. Any other matter(s) to be highlighted

Date: 05.11.2024

Place: Hyderabad

certified by the Registered Valuer.

participating in the Open Offer.

However, IDC would like to draw attention of the

shareholders that the equity shares of the Target

Company are presently trading on BSE Limited at a price

that is higher than the Offer Price. The shareholders are advised to independently evaluate the Open Offer via

current share price and take an informed decision, before

For and on behalf of the **Committee of Independent Directors of** Nagarjuna Agri-Tech Limited

Mahender Reddy Nalavola DIN: 09389493 Chairperson, Committee of Independent Directors

जानकारी की सूचना एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक (''ईजीएम'') का आयोजन बुधवार 27 नवंबर 2024 को अप. 12 30 बजे (भामास) वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों (''ओएवीएम'')

बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा, अर्थात कार्यालय, एवफिस प्रथम तल. ए-24 / ९. मोहन कोऑपरेटिव इंडस्टियल एस्टेट. मथरा रोड. नई दिल्ली-110044। ईजीएम के लिए कोरम की गणना करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

के माध्यम से, ईजीएम में सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना, ईजीएम की सूचना मे

निर्धारितानुसार व्यवसायों का लेन-देन करने हेतू किया जायेगा।

कंपनी ने ईजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड (यानी ईमेल) के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेज दी है जिनके ई–मेल पते कंपनी / लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास शुक्रवार 1 नवंबर 2024 के अनुसार पंजीकृत थे, जो कि सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के अनुसार है, जिनमें से नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 है जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किया गया है जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किये गये सेबी मास्टर परिपत्र सं.: सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी2 / सीआईआर / पी / 2023 / 120 दिनांक 11 जुलाई, 2023 और सेबी परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 (जिसे यहाँ इसमें आगे सामूहिक रूप से "परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित है। ईमेल के माध्यम से ईजीएम की सूचना भेजने का काम मंगलवार, 5 नवंबर, 2024 को पूरा

ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.e2enetworks.com पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (वेबसाइटों) यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") की वेबसाइट https://www.linkintime.co.in/ पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को लिंक इनटाइम द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों से अनुरोध है कि os https://instavote.linkintime.co.in/ देखें तथा उन्हें दिए गए रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन तक पहुँचें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डीपी के माध्यम से अपने ई–मेल पते और बैंक खातों

के विवरण सहित अपने केवाईसी विवरण को अपडेट / पंजीकृत करें, ताकि आपके डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आपके डीमैट खाते में पैन, ई-मेल पते और बैंक खाते के विवरण जैसे केवाईसी विवरण को पंजीकृत / अपडेट किया जा सके। दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिये अनुदेश :

i- कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 ("सूचीबद्धता विनियमन") के विनियमन 44 के साथ पिठत, के अनुसार सदस्यों को लिंक इनटाइम द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("दरस्थ ई-वोटिंग") का उपयोग करके ईजीएम की सूचना मे निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। बुधवार, 20 नवंबर, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") को सदस्य के होल्डिंग शेयर चाहे भौतिक रूप में हों या डीमैट रूप में, https://instavote.linkintime.co.in/ के माध्यम से लिंक इनटाइम की रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की कूल वोटिंग पूंजी में उनके शेयरों के चुकता मूल्य के अनुपात में होंगे। इसके अलावा, कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से

पप. रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 24 नवंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और मंगलवार, 26 नवंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद लिंक इनटाइम द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जायेगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य बाद में उसमें संशोधन

पपप. मतदान के तरीके से संबंधित सूचना और अनुदेश, जिसमें डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, ईजीएम की सूचना में और लिंक इनटाइम द्वारा सदस्यों को भेजे गए ईमेल में प्रदान किए गए हैं।

जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईजीएम सूचना भेजे जाने के बाद और कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 20 नवंबर, 2024 से पहले शेयर हासिल किए हैं, वे कंपनी को investors@e2enetworks.com पर या लिंक इनटाइम को enotices@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त

iv- वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, लेकिन जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम के दौरान ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दिया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि वे ईजीएम में ई-वोटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे।

v- जिन शेयरधारकों ने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें ईजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से इ ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। vi- ईजीएम की सूचना वेब–लिंक इन्वेस्टर (e2enetworks.com) पर भी उपलब्ध है।

vii- कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री अंकृश अग्रवाल, (सदस्यता संख्या एफ9719 और सीओपी संख्या 14486), एमएकेएस एंड कंप. के भागीदार, कंपनी सचिव (एफआरएन पी2018यूपी067700) को जांचकर्ता नियुक्त किया है।

viii- रिमोट ई—वोटिंग और ईजीएम में ई—वोटिंग से संबंधित मुद्दों और चिंताओं सहित किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका https://instavote.linkintime.co.in/ के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या श्री विशाल दीक्षित, टीम सदस्य, लिंक इनटाइम, चौथी मंजिल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमाला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013 को निर्दिष्ट ई-मेल आईडी instameet@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेंगे। सदस्यगण

कंपनी सचिव को cs@e2enetworks.com पर भी लिख सकते हैं। शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि वे ईजीएम में शामिल होने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वोट डालने के तरीके आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए ईजीएम सूचना में दिए गए नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

> कृते ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड हस्ता. / -रोनित गाबा कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

Place : Mumbai Date: November 05, 2024

15 Any other matter to be highlighted

		Capital of the Target Company on a fully diluted basis from the eligible shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹11/- (Rupees Eleven only) per equity share ("Open Offer")
4	Name of the Acquirers and PAC with the Acquirers	Acquirers: Jatinkumar Tulsibhai Patel ("Acquirer 1"), Parth Tulsibhai Patel ("Acquirer 2") and Arjunkumar Jagdishbhai Patel ("Acquirer 3") There are no PAC(s) with the Acquirers for the purpose of the Open Offer.
5	Name of the Manager to the Offer	Saffron Capital Advisors Private Limited 605, Sixth Floor, Centre Point, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai-400 059; Tel. No.: +91 22 49730394 Email Id: openoffers@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor Grievance Id: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration Number: INM000011211 Contact Person: Sachin Prajapati/ Satej Darde
6	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC Members" or "Members of the IDC")	a) Mr. Rohan Mansukh Shah (DIN: 07490755) - Chairman and Member b) Mr. Bharat Laljee Shah (DIN: 06432795) - Member
7	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	ii. All IDC Members are Independent and Non -Executive directors on the Board of the Target Company. iii. Further, the members of IDC confirm that they do not hold any Equity Shares or other securities in the Target Company. iiii. Other than their positions as Directors of the Target Company, there are no other contracts or relationships with the Target Company.
8	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in Equity Shares/ other securities of the Target Company during the: i. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement ("PA") dated July 23, 2024; and ii. period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9	IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the members of the IDC have any contractual or any other relationship with the Acquirers.
10	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirers by IDC Members	
11		Based on the review, a) The IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹ 11/- per Equity Share is in line with the parameters prescribed by the SEBI (SAST) Regulations, 2011; b) IDC Members believe that the Offer is in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and the same is fair and reasonable. However, IDC members would like to draw the attention of the shareholders that, the Equity Shares of the Target Company are trading on BSE at a price that is higher than the Offer Price; and c) It is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer vis-à-vis current share price and take an informed decision before participating in the Offer.
12	Summary of reasons for recommendation	 The IDC Members have reviewed: Public Announcement ("PA") dated July 23, 2024; Detailed Public Statement ("DPS") dated July 29, 2024 and was published on July 30, 2024; Draft Letter of Offer ("DLOF") dated August 06, 2024; Letter of Offer ("LOF") dated October 28, 2024; The IDC members also noted that: The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded in terms of Regulations 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Offer Price is in accordance with Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Offer Price is higher than the (i) negotiated price under the Share Purchase Agreement executed on July 23, 2024, i.e. ₹ 7.50/- per Equity Share and (ii) the price determined by the Acquirers and the Manager taking into account valuation parameters per Equity Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares. Based on above, the IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹ 11/-per equity share is in line with the parameters prescribed by SEBI (SAST) Regulations, 2011.
13	Disclosure of voting pattern	These recommendations were unanimously approved by the Members of the IDC.
14	Details of Independent Advisors, if any.	None None
400	2 - Land C. Hadpartadity land of his land	Programme and the second secon

all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

Terms not defined herein carry the meaning ascribed to them in the Letter of Offer dated October 28, 2024.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement.

is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of

Vaghani Techno-Build Limited Mr. Rohan Mansukh Shah Chairperson of IDC DIN: 07490755

www.readwhere.com

दिनाँक : 5 नवंबर, 2024

स्थान : नई दिल्ली